



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 478 राँची, सोमवार

7 मई, 2018 (ई०)

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

26 मार्च, 2018

एस०ओ०-37--(संख्या-२/ एम०डब्लू०-२०७१/२०१०,श० नि०-590-- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का11) का की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (इसके आगे उक्त अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड(डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे ।

क्रम० सं०	अनुसूचित नियोजनों के नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष २००१=१००)
१	२	३	४
१	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	जुलाई, २०१७	२८५
२	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	अगस्त, २०१७	२८५
३	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	सितम्बर, २०१७	२८५
४	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	अक्टूबर, २०१७	२८७
५	डिस्टीलरी के नियोजन	नवम्बर, २०१७	२८८
६	पाट्रीज़ के नियोजन	दिसम्बर, २०१७	२८६
७	बेकरीज़ एवं कान्फ़केशन के नियोजन		
८	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन		
९	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	कुल	१७१६
१०	खण्डसारी उद्योग के नियोजन		
११	केमिकल एण्ड फ़ार्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	छः माह का औसत	<u>१७१६</u> ६
१२	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन		
१३	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन		
१४	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना के नियोजन		
१५	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन		

१६	बन्दुक कारखाने के नियोजन		
१७	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन		
१८	पेपर उद्योग के नियोजन		
१९	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन		
२०	होजियारी निर्माण के नियोजन		
२१	सिंदूर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन		
२२	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन		
२३	उड वर्क्स एवं फ़र्निचर के नियोजन		
२४	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन		
२५	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन		
२६	फिशरीज़ के नियोजन		
२७	खादी ग्रामोध्योग के नियोजन		
२८	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन		
२९	हार्ड कोक भट्टा के नियोजन		
३०	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन		
३१	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन		
३२	मुद्रणालय के नियोजन		
३३	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन		
३४	हैंडलूम उद्योग के नियोजन		

३५	स्वर्ण एवरजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन		
३६	रिफैक्टरीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन		
३७	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन		
३८	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन		
३९	किसी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन		
४०	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन		
४१	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बूने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन		
४२	डेयरी एवं पोल्ट्री फार्म्स के नियोजन		
४३	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन		
४४	सिनेमा उद्योग के नियोजन		
४५	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों के नियोजन		
४६	तेल मिलों के नियोजन		
४७	सिलाई उद्योग के नियोजन		
४८	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग(जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन		
४९	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन		
५०	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन		
५१	सीमेंट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन		

५२	कृषि नियोजन		
५३	जिल्दसाजी उधयोग के नियोजन		
५४	दफ्ती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन		
५५	इलेक्ट्रॉनिक उधयोग के नियोजन		
५६	प्लाइवूड उधयोग के नियोजन		
५७	ढलाई()उधयोग के नियोजन		
५८	बिस्कुट उधयोग के नियोजन		
५९	कोल ब्रिकेट उधयोग के नियोजन		
६०	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन		
६१	लघु अभियंत्रण उधयोग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन		
६२	मिनरल ग्राइडिंग के नियोजन		
६३	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन		
६४	घरेलू नौकर के नियोजन		
६५	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन		
६६	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन		
६७	मोटर बाडीबिल्डिंग के नियोजन		
६८	मेस, कैटिन एवं क्लब के नियोजन		
६९	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टीच्युट, निजी स्कूल आदि के नियोजन		
७०	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन		

७१	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन		
७२	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन		
७३	ग्राइडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन		
७४	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन		
७५	कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन		
७६	मोबाइल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य		
७७	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधि० १९७६ से आच्छादित नियोजन		

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-४ में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महंगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई-दिसम्बर, २०१७ (वर्ष २०१७ का द्वितीय अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक- ०१-०४-२०१८ की तिथि से देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बुद्धदेव भगत,
सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना

एस० ओ०-37-- का अँग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 34८ के खण्ड-३ के अधीन अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बुद्धदेव भगत,
सरकार के अवर सचिव।

NOTIFICATION

26 March, 2018

S.O-37-- No-2/MW-2071/2010 L&T-590- In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here to appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule-1 for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	2	3	4
1	Dam Construction and Irrigation	July, 2017	285.00
2	Shops Selling Cooked food stuff	August, 2017	285.00

3	Tanneries and Leather Manufactory	September,2017	285.00	
4	Cold Storage	October, 2017	287.00	
5	Distilleries	November,2017	288.00	
6	Potteries	December, 2017	286.00	
7	Bakeries and Confectionaries		1716.00	
8	Co-Operative Sector	Total-		
9	Aluminum Industry		<u>1716.00</u>	
10	Khandsari Industry	Average	6	
			= 286	
			286-253=33 Points	
			=13.04% increase	
1	2		3	4
11	Chemical Pharmaceutical Industry			
12	Soap Making Industry			
13	Cement Pre-Stressed Product Industry			
14	Asbestos Cement factory			
15	Glass Sheet Industry			
16	Gun factory			
17	Religious and Social Industry			
18	Paper Industry			
19	Laundry and Washing			
20	Hosieries Manufacturing			
21	Manufacture of Sindur and Rang			

22	Manufacture of leather goods		
23	Wood work and Furniture		
24	Ice-cream and Cold drink		
25	Petrol and Diesel Pump		
26	Fisheries		
27	Khadi and Village Industry		
28	Private Ferrise and L.T.C.		
29	Hard Coke Oven		
30	Private Hospital, Nursing		
31	Construction or maintenance of Road or in building construction		
32	Printing Press		
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)		
34	Handloom Industry		
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design		
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry		
37	Any shop or Establiment		
38	Public Motor Transport		
39	Any University, Education Research of Iultural Institution		
40	Hotels, Eating House and Resturant		
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment		
42	Dairies and Poultry Farms		
43	Auto Mobile Engineering		
44	Cinema Industry		

45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills		
46	Tailoring Industry		
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)		
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry		
49	Plastic Industry		
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry		
51	Employment in Agriculture		
52	Book Binding Industry		
53	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)		
54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory		
55	Electronics Industry		
56	Plywood Industry		
57	Foundry Industry		
58	Biscuit Industry		
59	Coal Briquette Industry		
60	Private Security Agency		
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)		
62	Mineral Grinding Industry		
63	Employment of Sweeping and Cleaning		
64	Sponse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots		
65	Employment in Motor garages and workshops		

66	Employment of Motor Body Building.		
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs		
1	2	3	4
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.		
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)		
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.		
71	Employment in Electricity Generator and supply		
72	Employment in Decoration of Pandal etc.		
73	Grinding and crushing of Mineral ore.		
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.		
75	Computer Coaching Institute etc.		
76	Employment of Mobile Tower etc.		
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976		

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will be not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July-December, 2017, which is 2nd half of 2017, will be payable from 1 April, 2018.

By Order of the Governor of Jharkhand,

Budhdeo Bhagat,
Under Secretary to Government.

2 अनुसूची-1

क्रम सं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई-दिसम्बर, २०१८ तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं।	जुलाई-दिसम्बर, २०१८ तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर महंगाई भत्ता देय है।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि(५-४)	बढ़े हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महंगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि देनी होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	अधिसूचना सं० -१४६७, १४६७ दिनांक १४.०८.२०१५	२५३	२८६	३३ अर्थात् $\frac{33 \times 100}{253} = 13.04\%$	क) रु० २१०.०० पर रु० २७.३८ प्रति दिन	दिनांक ०१.०४.२०१८ से
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन					ख) रु० २२०.०० पर रु० २८.६८ प्रति दिन	
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	तदैव				ग) रु० २९०.०० पर रु० ३७.८९ प्रति दिन	
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	तदैव				घ) रु० ३३५.०० पर रु० ४३.६८ प्रति दिन	
5	डिस्टिलरी के नियोजन	तदैव				मासिक क) रु० ५४६० पर रु० ७११.९८ प्रतिमाह	
6	पाट्रीज़ के नियोजन	तदैव				ख) रु० ५७२० पर रु० ७४५.८८ प्रतिमाह	
7	बेकरीज़ एवं कान्फ़केशन के नियोजन	तदैव				ग) रु० ७५४० पर रु० ९८३.२१ प्रतिमाह	
8	कोआपरेटिव - सेक्टर के नियोजन	तदैव				घ) रु० ८७१० पर रु० ११३५.७८ प्रतिमाह	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
10	खण्ड्सारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13	सीमेंट प्रीस्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग - केनियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
14	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
15	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
18	पेपर उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
19	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
20	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
21	सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
22	चर्मवस्तु निर्माण के नियोजन-	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
23	उड वर्क्स एवं फर्निचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
24	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
२६	फिशरीज़ के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२७	खादी ग्रामोध्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२८	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२९	हार्ड कोक भट्टा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३०	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३१	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३२	मुद्रणालय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३३	अबरक कार्योंखदानों को छोड़कर) के (कारखाने एवं प्रतिष्ठान नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३४	हैंडलूम उध्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३५	स्वर्ण एंवरजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३६	रिफ़ैक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उध्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३७	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३८	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३९	किसी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४०	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओ के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
४१	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बूनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४२	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४३	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४४	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४५	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४६	तेल मिलों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४७	सिलाई उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४८	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योगजिसमें टायर एवं ट्यूब का) के (निर्माण भी सम्मिलित है नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४९	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५०	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५१	सीमेंट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं०-१४७३, १४७४दिनांक १४.०८.१५	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५२	कृषि नियोजन	अधिसूचना सं०-१४६७, १४६८दिनांक १४.०८.१५	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५३	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५४	दफ्ती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
५५	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५६	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५७	ढलाईउद्योग के नियोजन()	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५८	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५९	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६०	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६१	लघु अभियंत्रण उद्योगस्वचालित) के (अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६२	मिनरल ग्राइडिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६३	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६४	घरेलू नौकर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६५	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इन्गोट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६६	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६७	मोटर बाडीबिल्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६८	मेस, कैंटिन एवं क्लब के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६९	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टीच्युट, निजी स्कूल आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७०	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
७१	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७२	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७३	ग्राईडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७४	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राईवरपरिचालक /खलासी / आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७५	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७६	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	अधिसूचना सं०-१४६९, १४७०दिनांक १४.०८.१५	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७७	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी सेवा की) से आच्छादित १९७६ ०अधि (शर्तें नियोजन		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बुद्धदेव भगत,
सरकार के अवर सचिव।

Schedule-I

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2014 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of July-December, 2017 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1467, 1468 Date 14-08-2015	253	286	33 Or 33×100 253 =13.04%	(a) On Rs. 210.00 Rs. 27.38 per day (b) On Rs. 220.00 Rs. 28.68 per day (c) On Rs. 290.00 Rs. 37.81 per day (d) Rs. 335.00 and above Rs. 43.68 per day <u>Monthly</u> (a) On Rs. 5460.00 Rs. 711.98 per month (b) On Rs. 5720.00 Rs. 745.88 per month (c) On Rs. 7540.00 Rs. 983.21 per month (d) Rs. 8710.00 and above Rs. 1135.78 per month	From 01.04.2018
2	Shops Selling Cooked food stuff	-Do-					
3	Tanneries and Leather Manufactory	-Do-					
4	Cold Storage	-Do-					
5	Distilleries	-Do-					
6	Potteries	-Do-					
7	Bakeries and Confectionaries	-Do-					

	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Co-Operative Sector	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
9	Aluminum Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
10	Khandsari Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
11	Chemical Pharmaceutical Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
12	Soap Making Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
14	Asbestos Cement factory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
15	Glass Sheet Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
16	Gun factory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
17	Religious and Social Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	
18	Paper Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
19	Laundry and Washing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
20	Hosieries Manufacturing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
21	Manufacture of Sindur and Rang	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
22	Manufacture of leather goods	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
23	Wood work and Furniture	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
24	Ice-cream and Cold drink	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
25	Petrol and Diesel Pump	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
26	Fisheries	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
27	Khadi and Village Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
28	Private Ferries and L.T.C.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
29	Hard Coke Oven	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
		-Do-						

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
71	Employment in Electricity Generator and supply	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
75	Computer Coaching Institute etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
76	Employment of Mobile Tower etc.	Notification No-1469, 1470 Date 14.08.2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

By order of the Governor of Jharkhand,

Budhdeo Bhagat,
Under Secretary to Government.
